



# UNIVERSITY MODEL SCHOOL

DR. B.R. AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

**HOLIDAY HOME WORK -2024-25**

**CLASS – VII**

**Instructions :-** *Do all the written work in your class work copy.*

**English Literature:-**

- I- Read the lessons and write (any 40) difficult words from the Lesson 4 and 5. (in a separate thin copy) The Ant and the grasshopper & A cricket Match
- ❖ Learn all the lesson & exercises as done in class.

**English Language:-**

- 1- Composition – Write Essay's on –
  - (i) Swachh Bharat Abhiyan
  - (ii) Physical Exercise.
- 2- Do one page 'Cursive writing' every day. (At least 30 pages in a single line copy)

**हिन्दी :-**

- पाठ - 8 मेरे देश के लाल कविता चित्र सहित चार्ट पेपर पर लिखिए व याद करिए।
- पाठ - 3, 4, 5 के शब्दार्थ याद करो।
  - 1- निबंध लेखन - कॉपी में लिखिए।
    - (१) विद्यार्थी जीवन में अच्छी आदतों का महत्व
    - (२) सड़क सुरक्षा : जीवन रक्षा

**संस्कृत :-**

- Read & Learn – प्रार्थना, शब्द रूप बालक, बालिका, फल क्रिया रूप लट् लकार (वर्तमान काल-अस, पठ् सर्वनाम रूप - अस्मद्, युष्मद्)
- अध्याय-9 के श्लोक लिखने व याद करने है।  
अध्याय-5 के सुभाषितानी या ६ अध्याय का चार्ट से किसी एक का चार्ट बनाईए और प्रतिदिन संस्कृत में बनाकर कथा लिखनी है।  
प्रतिदिन एक पृष्ठ संस्कृत पाठ कालेखन करना है।
- रामायण और भगवद्गीता के 10-10 श्लोक एवं अनुवाद एक कॉपी में लिखें और या करें।

**Mathematics:-**

- All M.C.Qs first term chapter.
- Solve test paper from chapter 1 & 2 in copy.

### **Science:-**

#### ➤ **Nutrition in Plants**

- 1- Collect different types of leaves and flowers and paste in Herbarium file.
- 2- Draw a chart to show different type of mode of nutrition in animals or plants (any one)
- 3- Solve all mcqs and true false of chapter 1 and 2.

### **Social Science:-**

- 1- Make poster on any motivational thought or, inspirational quote.
- 2- Do all the written work in your class work copy and book.
- 3- Learn all work done in your notebook.

### **Computer Science:-**

- Make a file of minimum 5 pages with diagram or picture or any one topic.
- (i) Computer safety and security.
  - (ii) Internet and its services.
  - (iii) Computer Networking
  - (iv) Also write full form and shortcut key from ch-1 to ch-5

### **Yoga:-**

1. Make a chart on any of the Asana of your choice and also write its benefits on the chart.
2. After doing some warm-up like jogging, jumping or rope skipping etc. Practice “Suryanamaskar” in the morning daily.

### **SUPW:-**

Make wall hanging or different types of artificial flowers (at least 20)